

अब्भत् abhaxa m. (bhāx) serpent d'eau.

अब्रह्माचर्यक् abrahmačaryaka n. incontinence.

अब्रुवत् abruvat ppr. nég. (brū) qui ne dit pas; qui ne parle pas.

* अभ् a. Cf. amb.

अभक्त् abakta a. (bhāj) irréligieux.

अभत् abaxa a. (bhāx) sans aliments; à jeun.

अभय् abaya a. (bhī) sans peur, intrépide; || en sécurité. — S. n. sécurité; intrépidité. || Racine d'andropogon muricatum. — S. f. terminalia citrina, bot.

abayañdīma m. tambour de guerre.

abayañdada m. np. du saint Avalokiteśvara, Bd.

अभव् abava m. et abāva a. (bhū) qui n'est pas. — S. m. non-existence, néant; destruction, anéantissement; mort.

अभार्त् abárxam a. de brājj.

अभावयत् abávayat ppr. nég. (bhāva) qui ne médite pas.

अभाषण् abáṣaṇa n. (bhāṣ) silence.

अभि abि pfx. (sfx. bī) vers; direction vers. abī, dans le Veda.

अभिक् abika a. (kam) désireux, passionné.

अभिकरोमि abikaromi, abikurvé 8, (kr̥) mms. que kr̥.

अभिकाङ्क्षामि abikāṅkṣámi 1, (kākṣ) désirer.

अभिकाम् abikáma m. (kam) amour, désir.

अभिक्रिमि abikirámi 6, (kr̥) remplir.

अभिक्रन् abikrama m. (kram) accession; || tentative; || entreprise; effort.

abikramanāca m. (naç) insuccès; effort perdu.

abikramámi, abikramé 1, aller vers; approcher; essayer; s'efforcer.

अभिकृद्यामि abikrūḍyámi 4, (kruḍ) ac. s'irriter contre.

अभिख्या abikhyá f. (kyā) appellation; nom. || Appel. || Renom, gloire.

अभिगच्छामि abigačcámi 1, (gam) aller vers, aborder.

अभिग्राहामि abigarjámi 1, (garj) accueillir par des cris, huér.

अभिगायामि abigdyámi 1, (gaz) ac. chanter, réciter.

अभिगुप्त abigupta pp. (gup) protégé, défendu.

अभिगृष्णामि abigṛṣṇámi 9, (gṛ̥) Vd. adresser la parole; approuver.

अभिगोपयामि abigópayámi 10, (gup) défendre, protéger.

अभिग्रह् abigraha m. (grah) attaque, défi. || Pillage, vol.

abigrahanā n. mms.

अभिघातिन् abigálin m. (han) meurtrier; ennemi.

अभिघरामि abičárámi 1, (car) aller vers, aborder; || visiter; fréquenter. || Aller contre, heurter; offenser.

abičára m. serviteur.

abičára m. charme magique contre qqn. ou qqc.

अभिचोदयामि abicódayámi 10, (cud) lancer; exciter. || Ordonner, proclamer. || Interroger.

अभिजगामि abijagámi 3, (gā) aller vers. abijagmus, 3p. pl. p. d'abihani.

अभिजग्नत् abijaǵnatus 3p. pl. p. d'abihani.

अभिजन् abijana m. (jan) famille; || naissance, origine, race; noblesse. || Pays natal.

abijanaval a. de bonne race, noble.

abijáta a. mms.

abijáyé 4, naître, se produire; tirer son origine.

अभिज्ञानामि abijánámi 9, (jñā) connaître, savoir; comprendre; reconnaître.

abijña a. qui sait; instruit; expérimenté.

abijñá f. Bd. science surnaturelle. || Au pl. les cinq connaissances surnaturelles, à savoir: prendre la forme que l'on veut, entendre à toute distance, pénétrer les pensées des hommes, connaître leurs conditions et leurs vies antérieures, voir à toute distance.

abijñána n. signe de reconnaissance. marque.

अभितप्यामि abitapámi 1, (tap) chauffer; brûler. || Au fig. consumer.

abítápa m. chagrin qui consume.

अभितज्जे abitarjé 1, (tarj) crier; menacer; injurier.

अभितस् abitas adv. (sfx. tas) près de, du côté de; en présence de. || Lat. apud; angl. about.

अभितुष्टाव abituṣṭáva p. d'abistṣṭomi.

अभिददामि abidadámi 3, (dā) donner.

अभिदधामि abidaddámi 3, (dā) exposer, raconter; || dire, nommer. || Assiéger; envahir.

अभिदर्शयामि abidarçayámi c. (dṛ̥) montrer.

अभिदूषित abidúṣita pp. d'abidóṣayámi (duṣ) frapper, blesser.

अभिद्रवामि abidravámi 1, (dru) courir vers, sur. || Accourir.

अभिद्रुह्यामि abidruhyámi 4, (druh) nuire; blesser, heurter. — A 2, vēdiq. abidruham. — Pp. abidrugā.

अभिधर्म abidharma n. (dharma) Bd. la métaphysique: abuddhōktam abidarmacástram le livre de la métaphysique n'a pas été exposé par le Buddha.

abidarmapitaka Bd. la collection des écrits de métaphysique.

अभिधा abidá f. (dā) exhibition. || Apellation, nom, épithète.

abidána n. nom.

abidáyaka n. expression.

abidéya n. nom.

अभिधारयामि abidárayámi 10, (dā) sou tenir, conserver.

अभिधावामि abidávámi 1, (dāv) accourir à, ac.

अभिध्या abidyá f. (dyā) convoitise; désir. abidyáyámi et abidyáyé 1, penser, concevoir, méditer; penser à.

अभिनन्दामि abinandámi 1, (nand) se réjouir de, ac. || Tenir compte, avoir en considération. || Féliciter; saluer. || Reconnaître.

abinanadayámi c. réjouir.

अभिनमामि abinamámi 1, (nam) incliner, courber. || S'incliner par respect.

अभिनयामि abinayámi 1, (ni) conduire vers.

अभिनया m. geste, regard, etc., indiquant un sentiment.

अभिनव् abinava a. (nava) nouveau; récent.

abinañdādāmī 1, (ut-bid) bourgeon nouveau, bouton.

अभिनादयामि abinádayámi 10, (nad) résonner, retentir; || crier.

अभिनिधान abiniñdána n. (dā) dépression ou diminution euphonique de la valeur propre d'une lettre, tg.

अभिनिधयाये abinidiyáyé 1, (dyā) penser; concevoir.

अभिनिपिडयामि abinipidayámi 10, (pid) presser; tourmenter.

अभिनिर्गच्छामि abinirgačcámi 1, (gam) sortir.

अभिनिर्मुक्त् abinirmukta pp. (muć) laissé; délaissé.

अभिनिर्याण abiniryána n. (yā) assaut; || marche.

अभिनिवेष abinivéṣa m. (vīc) inclination, disposition. || Action de s'incliner.

अभिनिष्क्रामामि abiniñkrámámi 1, (kram) partir pour le désert, pour le couvent, pour la vie religieuse.

abiniñkrámanā n. départ pour la retraite religieuse.

अभिनिष्ठान abiniñstána m. (stā) douce aspirée, tg.

अभिनीत abinila pp. d'abínayámi. || conduit à; propre à, capable de. || Absolt. terminé, fini, parfait.

अभिनिष्ठान abiniñstána m. (stā) douce aspirée, tg.

अभिनित abinila pp. d'abínayámi. || conduit à; propre à, capable de. || Absolt. terminé, fini, parfait.

अभिनिष्ठान abiniñstána m. (stā) douce aspirée, tg.

अभिनिष्ठान abiniñstána m. (stā) douce aspirée, tg.